

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1]

नई दिल्ली, जनवरी 4—जनवरी 10, 2004, शनिवार/पौष 14—पौष 20, 1925

No. 1]

NEW DELHI, JANUARY 4—JANUARY 10, 2004, SATURDAY/PAUSA 14—PAUSA 20, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

का.नि.आ. 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय (वित्त) में कनिष्ठ लेखाकार के पद की भर्ती पद्धति को व्यवस्थित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय (वित्त) कनिष्ठ लेखाकार भर्ती नियम, 2003 होगा।

(2) ये नियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण व वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से पति/पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस निर्णय के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जब केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हों, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्याप्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	कनिष्ठ लेखाकार
2. पदों की संख्या	:	2*
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	जी. सी. एस. ग्रुप 'घ', (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)
4. वेतनमान (रुपए)	:	5000-150-8000 रुपए
5. योग्यता के आधार पर चयन अथवा चयन-सह-चरिष्ठता अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं
7. सेवा में जोड़े गए अतिरिक्त वर्षों का लाभ अनुमेय है या नहीं	:	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में भी लागू होगी या नहीं	:	लागू नहीं
10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा, प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा अथवा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद	:	प्रतिनियुक्ति
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	रक्षा लेखा विभाग के लेखापरीक्षक जिन्होंने 4500-125-7000 रुपए के वेतनमान में इस ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली है; अथवा

उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा समकक्ष अथवा रोकड़ लेखा और बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव रखते हों।

प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पूर्ववर्ती अन्य बाह्य संवर्ग पद में

प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल हैं, तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : लागू नहीं
14. भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/99-स्था.-II]

एम. सी. लूथर, उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 19th December, 2003

S.R.O. 1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Accountant in the Ministry of Defence (Finance) viz. :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Defence (Finance) Junior Accountant Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse,
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category or persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

1. Name of the post	: Junior Accountant
2. Number of posts	: 2*
	*Subject to variation depending on workload.
3. Classification	: CGS, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial)
4. Scale of pay	: Rs. 5000-150-8000

5. Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	: Not applicable
6. Age limit for direct recruits	: Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible	: Not applicable
8. Educational and other qualification required for direct recruits	: Not applicable
9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10. Period of probation, if any	: Not applicable
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and of the posts to be filled by various methods	: Deputation
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	: Auditors from the Defence Accounts Department in the pay scale of Rs. 4500-125-7000 with 3 years regular service in the grade. OR Upper Division Clerks with 5 years regular service in the grade and who have undergone training in Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent or possessing 3 years experience of Cash, Accounts and Budget work. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	: Not applicable
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	: Consultation with UPSC not necessary.

[F. No. A-12018/1/99-Estt. II]

M.C. LUTHER, Dy. Financial Adviser (E)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2003

का.नि.आ. 2.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले की पाठानकोट तहसील में गांव लामिनी, सिहुन्ती, मनवल तथा मामून में स्थित 2 गोलाबारूद उप डिपो (18 एफएडी) के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला गुरदासपुर, पंजाब राज्य के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में रक्षा संकर्म, अर्थात् गुरदासपुर जिले की पठानकोट तहसील में गांव लामिनी, सिहुन्ती, मनवल तथा मामून में स्थित 2 गोलाबारूद उप डिपो की बाहरी परिधी से 1000 गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[रक्षा मंत्रालय सं. ए./51491/एल डब्ल्यू (नार्थ)/539-वी]

ललित चौहान, अवर सचिव

New Delhi, the 14th November, 2003

S.R.O. 2.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of 2 Ammunition Sub Depot (18 FAD) at villages Lamini, Sihunti, Manwal and Mamun, Tehsil Pathankot, Distt. Gurdaspur in the State of Punjab, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of Deputy Commissioner, Distt. Gurdaspur in the State of Punjab.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of 1000 yards from the outer perimeter of the Works of Defence, namely 2 Ammunition Sub Depot at villages Lamini, Sihunti, Manwal and Mamun, Tehsil Pathankot, Distt. Gurdaspur in State of Punjab.

[Ministry of Defence No. A/51491/LW(North)/539-V]

LALIT CHAUHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2003

का.नि.आ. 3.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान् द्वारा ले. कर्नल एस.के. चिकारा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, जम्मू में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/58/जम्मू/सी/डीई/2001/4533/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th December, 2003

S.R.O. 3.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jammu by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command of resignation of Lt. Col. S. K. Chhikara.

[F. No. 19/58/Jammu/C/DE/2001/4533/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2003

का.नि.आ. 4.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, जम्मू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल टी. पी. एस. नेगी को छावनी बोर्ड, जम्मू का सदस्य मनोनित किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल एस.के. चिकारा के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/58/जम्मू/सी/डीई/2001/4533/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

3849 GI/03-2

New Delhi, the 18th December, 2003

S.R.O. 4.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. T.P.S. Nagi has been nominated as a member of the Cantonment Board, Jammu by the Station Commander, Jammu in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. S.K. Chhikara whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/58/Jammu/C/DE/2001/4533/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2003

का.नि.आ. 5.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान् द्वारा कर्नल बी.पी.एस. सेखों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, देवलाही में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/12/देवलाही/सी/डीई/2001/4532/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th December, 2003

S.R.O. 5.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Deolali by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of resignation of Col. V.P.S. Sekhon.

[F. No. 19/12/Deolali/C/DE/2001/4532/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2003

का.नि.आ. 6.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, देवलाही ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल बी. सी. कोरी को छावनी बोर्ड, देवलाही का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल बी. पी. एस. सेखों के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/12/देवलाही/सी/डीई/2001/4532/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th December, 2003

S.R.O. 6.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. B.C. Kori has been nominated as a member of the Cantonment Board, Deolali by the Station Commander, Deolali in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. V.P.S. Schkon whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/12/Deolali/C/DE/2001/4532/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2003

का.नि.आ. 7.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि पंजाब राज्य के जिला जालंधर में गांव मांद, बस्ती इब्राहिम खान तथा गाजीपुर तहसील में मांद गोलाबारूद भण्डारण के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला जालंधर, पंजाब राज्य के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में रक्षा संकर्म, अर्थात् जिला जालंधर में गांव मांद, बस्ती इब्राहिम खान तथा गाजीपुर तहसील में स्थित गोलाबारूद भण्डारण की बाहरी परिधि से 1200 गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[रक्षा मंत्रालय सं. बी./50542/एल डब्ल्यू (पश्चिम)]

सहेली घोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 2003

S.R.O. '7.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (a) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of Ammunition Dump Mand at villages Mand, Basti Ibrahim Khan and Gajipur Tehsil and District Jalandhar in the State of Punjab, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of Deputy Commissioner, Jalandhar in the State of Punjab.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of 1200 yards from the outer perimeter of the Works of Defence, namely Ammunition Dump Mand at villages Mand, Basti Ibrahim Khan and Gajipur Tehsil and District Jalandhar in the State of Punjab.

[Ministry of Defence No. B/50542/LW(West)]

SAHELI GHOSH ROY, Under Secy.